



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5—मार्च 11, 2005 (फाल्गुन 14, 1926)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5—MARCH 11, 2005 (PHALGUNA 14, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 19 जनवरी 2005

सं. ए. 32013/2/2003-प्रशा. 1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री प्रेम प्रकाश, के. स.आशु.से. को सं.लो.से.आ. के संवर्ग में तदर्थ आधार पर 1 जनवरी से 30 जून, 2005 तक अथवा नियमित वरि.प्र.नि. सचिव उपलब्ध होने तक अथवा आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, रु. 12000-375-16500 के वेतनमान में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में श्री प्रेम प्रकाश की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ प्रकृति की है और उन्हें अनिश्चित रूप से पद पर बने रहने अथवा के.स.आशु.से. के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का कोई हक नहीं होगा।

3. इसे इस कार्यालय की दिनांक 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. ए. 32013/1/99-प्रशा.-I के अनुसरण में जारी किया जाता है।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 12011/2/98-प्रशा. 1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 के का.ज्ञा.सं. 5/16/2003-सी.एस. II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के के.स.आ.से. संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिकों, ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित) को दिनांक 1 जनवरी से 30 जून, 2005 तक या अधिकारियों की चयन सूची उपलब्ध होने तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं:--

1. श्री के.के. शर्मा
2. श्री बी.एस. घुम्पन
3. श्री आर. मणि
4. श्री डी.पी. हुरा
5. सुश्री साबूरानाम गोपु
6. सुश्री एस.एम. ओबराय
7. श्री एच.सी. सहगल

2. उपर्युक्त अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव के पद पर पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उन्हें उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा के.सं.आ.से. संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिल जाएगा।

3. यह इस कार्यालय की दिनांक 21 जुलाई, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में जारी किया जाता है।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

#### केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. डीपी/पर्स. 1/2005/22/11/41/2000--राष्ट्रपति ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित पुलिस अधीक्षकों को पदोन्नति पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तारीख से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	हरभजन राम	29.12.2004
2.	पी.डी. मीणा	29.12.2004
3.	के.बी. सिंह	29.12.2004
4.	नारायण झा	29.12.2004

उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति भारत संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सीडब्ल्यूपी सं. 5590/99 और 231/2001 के परिणाम के अधीन है।

एस. डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स. 1/2005/23/53/3/2002--भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.12.2004 के आदेश सं. 221/8/2001-एवीडी-2 के अनुसरण में श्री ए.पी. गोपालकृष्णन, पुलिस उपाधीक्षक (निलंबनाधीन), के.अ.ब्यूरो, एससीबी, चेन्नई को 9.2.2005 पूर्वाह्न से सेवा से बरखास्त कर दिया गया है।

एस. डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

#### केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. 2/8/04-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा रक्षा सम्पदा, की उप महानिदेशक श्रीमती दीपा बाजवा (आईडीईएस-1983) को आयोग में निदेशक के पद पर वेतनमान रु. 14,300-400-18,300 में

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 01.02.2005 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल  
उप सचिव  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

#### गृह मंत्रालय

न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. 18/18/97-प्रशा. (एफ.एस.)--राष्ट्रपति जी, सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख कार्यालय की श्री के.वी. रविकुमार, सहायक परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख की न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (न्यायालयिक विज्ञान) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 9.4.2003 से 8.4.2005 तक अगले दो वर्ष (5वें व छठे वर्ष) के लिए बढ़ाते हैं।

2. यह कार्मिक तथा प्रशि. विभाग के दिनांक 19.3.2004 के डायरी सं. ई II 447/8/2004 के अनुसरण से जारी किया जा रहा है।

डा. एम.एस. राव  
निदेशक (एफएस)

#### पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जनवरी 2005

सं. 06/13/2000-प्रशा. I--श्री जगदीप सिंह, सहायक निदेशक/कार्यकारी, आसूचना ब्यूरो, की केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीगढ़ में उप प्रधानाचार्य की पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 07.01.2005 से 31.11.2005 तक आगामी चौथे वर्ष के विस्तार के लिए सचिव, गृह मंत्रालय का अनुमोदन एतद्वारा सूचित किया जाता है।

2. यह गृह मंत्रालय के दिनांक 03.01.2005 के डायरी सं. एफ 3/एच. एस./04 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अशोक कुमार सूद  
सहायक निदेशक (प्रशा.)

#### महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. ओ-दो-3565/99-सीआरसी(एमओ)--डाक्टर, निश्चल वी. याल्गी, चिकित्सा अधिकारी (आईआरएलए-5063) 100 आर.ए.एफ. बट. से त्यागपत्र देने पर दिनांक 25.10.2004 (अपराह्न) को अपने पद का कार्यभार त्याग दिया। उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 25.10.2004 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

जे.एन. शर्मा  
अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक  
(कार्मिक-एक)

दिनांक 16 फरवरी 2005

सं. ओ-दो-3654/05-सीआरसी(एमओ)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर शहनाज अशरफ खॉन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 29.01.2005 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 162 बटा. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

जे.एन. शर्मा  
अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक  
(कार्मिक-एक)

दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. ओ-दो-4695/पी एफ. डी सी-पर्स-कार्मिक-1---सरकारी सेवा से त्यागपत्र संबंधी नोटिस दिनांक 16.09.2004 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री शेखर कुमार उप कमाण्डेंट, (ईरला नं. 4695) 172 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 01.02.2005 (पूर्वाह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार उक्त अधिकारी को दिनांक 01.02.2005 पूर्वाह्न से बल की नफरी से निकाला जाता है।

जे.एन. शर्मा  
अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक  
(कार्मिक-एक)

सं. ओ-दो-3651/05-सीआरसी(एमओ)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर एस. सुरेन्द्रनाथ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 05.01.2005 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 42 बटा. में तैनात किया जाता है।

जे.एन. शर्मा  
अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक  
(कार्मिक-एक)

सं. ओ-दो-3653/05-सीआरसी(एमओ)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर अनिल कुमार भारती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 28.01.2005 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 62 बटा. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

जे.एन. शर्मा  
अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक  
(कार्मिक-एक)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. ई.32015(4)/2/2002/कार्मिक.1/06--राष्ट्रपति जी, श्री प्रशांत खाम्बरा, सहायक कमान्डेंट (प्रॉब.) केओसुब नीसा, हैदराबाद का त्यागपत्र दिनांक 20.12.2003 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 16 फरवरी 2005

सं. 39-जी.ई.1/176-98/भाग-II--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवा-निवृत्त हो चुके हैं :--

सर्वश्री

- |                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| 1. अनिरुद दास       | अधिवाधिकी दिनांक 31.01.2005<br>(अपराह्न) |
| 2. विनय कुमार बनिक् | -यथोक्त-                                 |
| 3. कृष्ण लाल अरोड़ा | -यथोक्त-                                 |

दीपक नारायण  
सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. प्रशा.का.आ. सं. 129--निवर्तन की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय के श्री हरपाल सिंह कपूर ब.ले.प.अ. दिनांक 30.4.2005 अपराह्न को भारत सरकार की सेवा से सेवा-निवृत्त होंगे।

उनकी जन्म तिथि 10.4.1945 और नियुक्ति की तिथि 23.11.1963 (अपराह्न) है।

ह./- अपठनीय  
व. उप-महालेखाकार (प्रशा.)

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 17 फरवरी 2005

सं. प्रशासन-III/पेन/5-2/खंड-II/613--कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल के श्री सुशील कुमार साहा, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी तथा कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल के श्री उत्पल दासगुप्त, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री रत्नेन्द्रनाथ सामन्त, लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 31.01.2005 (अपराह्न) से प्रभावी वार्धक्य पर सेवा-निवृत्ति ग्रहण की।

जया भगत  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 14 फरवरी 2005

सं. का. स्था./ह व रो/ई IV पै/1209--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवा-निवृत्त हुए हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तारीख
1.	श्री के.आई. बालचन्द्रन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, एरणाकुलम	01.01.2005 पूर्वाह्न (स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति)
2.	श्रीमती पी.के. राजम्मा	लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.01.2005 अपराह्न (अधिर्वर्षिता)

ह./- अपठनीय  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. का. स्था(हक)I/पेन/10-2/2004-2005--प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए :-

क्र. सं.	नाम व पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तारीख	अभ्युक्तिता
1.	श्री पी. दामोदरन, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	31.01.2005	अधिर्वर्षिकी
2.	श्री वी. भास्करन, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	31.01.2005	अधिर्वर्षिकी
3.	श्री टी.वी. जेकब, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (वा.)	31.01.2005	अधिर्वर्षिकी

नारायणन सी.के.  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. ए-19018/758/84-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद में सहायक निदेशक (ग्रेड-1) (खाद्य), श्री पी.जे. संगई को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 10000-325-15200 के वेतनमान में उक्त संस्थान में उप निदेशक (खाद्य) स्थानापन्न आधारित

के पद पर दिनांक 01.02.2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस.वि.एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/438/79-प्रशा. (राज.)--सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर.एस. पाण्डेय, उप निदेशक (खाद्य) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, रांची से दिनांक 31.01.2005 (अपराह्न) को सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

एस.वि.एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 10 फरवरी 2005

सं. ए-19011/249/2005-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री ए. मजुमदार, उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी की भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दि. 27.1.2005 (पूर्वाह्न) में अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस.के.बातव  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

सं. ए. 19011/281/96-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री सी.एस. गुण्डेवार, अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दि. 1.2.2005 (पूर्वाह्न) से मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस.के.बातव  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

(कार्मिक प्रभाग)

मुंबई-85, दिनांक 14 फरवरी 2005

सं. पीडो/7(17)/2004-आर-4--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड एसबी के रूप में अगस्त 1, 2004 के पूर्वाह्न से, श्रीमती रितु एम. अगरवाल, क्रम संख्या 4 एवं श्रीमती अरुणा कदम, क्रम संख्या 8 जिनकी नियुक्ति तिथियां

क्रमशः अगस्त 10, 2004 एवं अगस्त 16, 2004 के पूर्वाह्न से हैं, को छोड़कर आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1.	दलवी अदिति ए. श्रीमती	एसए/सी
2.	सौंदरराजन सुवर्णा श्रीमती	एसए/सी
3.	वेंकटेश के.	एसए/सी
4.	अगरवाल रितु एम. श्रीमती	एसए/सी
5.	थंगवेल एस.	एसए/सी
6.	विनरकर यू.जी.	एसए/सी
7.	वालबुधे ए.वाय.	एसए/सी
8.	कदम अरूणा श्रीमती	एसए/सी
9.	राउत वैभव व्ही. श्रीमती	एसए/सी
10.	डफौटी सुनिता एल. श्रीमती	एसए/सी
11.	श्रीकुमार के.	एसए/सी
12.	कोठाई नचियर श्रीमती	एसए/सी
13.	मोहन सी.	एसए/सी
14.	राजकुमार बी.	एसए/सी
15.	ज्योतिष बाबू एम.व्ही.	एसए/सी
16.	राजशेखर जी.	एसए/सी
17.	वेलमुरुगन पी.	एसए/सी
18.	रॉय मधुमिता कुमारी	एसए/सी
19.	पाटिल यू.डी.	एसए/सी
20.	जॉन्सन बेल्ला श्रीमती	एसए/सी
21.	साह राजकुमार	एसए/सी

के. सी. दिवाकरन  
उप स्थापना अधिकारी

सं. पोडी/13(5)/98-आर-III/163--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री जी हरिहरन, सहायक कार्मिक अधिकारी, पी आर पी, कल्पक्कम को दिनांक 27.12.2004 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 7500-250-12000 के वेतनमान में पी आर पी, कल्पक्कम में प्रशासनिक अधिकारी-II के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

के. सी दिवाकरन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 14 फरवरी 2005

सं. 20/3(2)/2004-सीसीएस/5--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री के. मोहन राव, प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10000--15200),

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को दिनांक 02.07.2004 (पूर्वाह्न) से दिनांक 10.09.2004 (अपराह्न) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी निदेशालय में मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 12000-16500) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 20/3(2)/2004-सीसीएस/6--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री आर. जी. राघवन, सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान रु. 6500--10500), परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को दिनांक 02.07.2004 (पूर्वाह्न) से दिनांक 10.09.2004 (अपराह्न) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी निदेशालय में मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 10000-15200) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 21/3(3)/2004-सीसीएस/7--राष्ट्रपति, इस विभाग की श्रीमती आर. वी. कोचुमाधवी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8000--13500), निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, मुंबई को दिनांक 30.07.2004 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10000-15200) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 22/3(4)/2004-सीसीएस/8--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, इस विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई के श्री पी. वी. प्रभाकरन, उप निदेशक (वेतनमान रु. 12000-16500) दिनांक 31.12.2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2005

सं. 20/3(2)/2004-सीसीएस/9--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्रीमती ए. बैङ्गली, उप स्थापना अधिकारी (वेतनमान रु. 10000--15200), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को दिनांक 13.09.2004 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 12000--16500) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

दिनांक 18 फरवरी 2005

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

सं. 20/3(1)/2004-सीसीएस/वाल्सू II/10--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री वी. विजया रामी रेड्डी, प्रशासन अधिकारी-II (वेतनमान रु. 7500--12000), नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद को दिनांक 28.01.2005 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक पानी संयंत्र (तलचर) में प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10000--15200) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452 013, दिनांक 10 फरवरी 2005

सं. केट/प्रशा./भ-738/ओसीईएस-03/90--राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षार्थी वैज्ञानिक अधिकारियों को दिनांक 01 सितम्बर 2004 की पूर्वाह्न से वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' के पद पर रु. 8000-275-13500 के वेतनमान में प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक नाम

1. श्वेत केतु मिश्रा
2. श्री प्रशांत शर्मा
3. श्री संजीव कुमार
4. श्री शुभाशीष बसाक
5. श्री नितिन लूलानी
6. श्री सन्यासी राव बोम्बिलि
7. श्री रवि शंकर वर्मा
8. श्री अमित जैन
9. श्री सी कमल
10. कु. प्रतिमा जैन
11. श्री सुरेन्द्र यादव
12. श्री अब्दुरहीम
13. श्री हिमांशु श्रीवास्तव
14. श्री सरोज कुमार जेना
15. कु. अमिता चतुर्वेदी
16. श्री सिद्धेश अरुण पाई
17. श्री अनुज उपाध्याय
18. श्री अनिरुद्ध बोस

एस. सी. जैन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हैदराबाद-500 062, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. एनएफसी/काप्रभ-I/03/01/172--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कर्मियों को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में रु. 8,000-275-13,500 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के रूप में अस्थायी हैसियत में तारीख 01.09.2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों पर्यंत नियुक्त करते हैं :-

1. श्री किरण एस. गोपन
2. श्री जी. किरण कुमार
3. श्री संजय साहा
4. श्री अंबरीश डी. देशमुख
5. श्री नवीन कुमार एस दुबे
6. श्री पी. श्रीनिवास
7. श्री जी. प्रदीप कुमार
8. श्री विनायक बी. देशमुख
9. श्री स्वरूप आचार्य
10. श्री जगदीश राम जट

जी. कोटेश्वर राव  
प्रशासनिक अधिकारी-III (भर्ती)

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 17 फरवरी 2005

पखनि-16/3/91-भर्ती/238--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री एम. अशोक कुमार, सहायक लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 7450-225-11500) को दिनांक 16.11.2004 से 24.12.2004 तक की अवधि हेतु इसी निदेशालय में तदर्थ आधार पर लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 7500-250-12000) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आग्नेस बेंसिली  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

पखनि-16/3/91-भर्ती/239--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्रीमती वि. विजया, उच्च श्रेणी लिपिक (वेतनमान रु. 5000-150-8000) वित्तीय अपग्रेडेशन को दिनांक 16.11.2004 से 24.12.2004 तक की अवधि हेतु इसी निदेशालय में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 7450-225-11500) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आग्नेस बेंसिली  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

(बाह्य संपर्क अनुभाग)

मुंबई-400 001, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. 18/1(10)/2004-ईआर/499--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को भावी आदेश होने तक प्रत्येक व्यक्ति के सामने उल्लिखित ग्रेड पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) में नियुक्त करते हैं :--

अधिकारी का नाम	नियुक्ति ग्रेड	वेतनमान	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
श्री गोपाल कृष्ण पंड्य	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500	12.01.2005 (पूर्वाह्न)
श्री राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500	19.01.2005 (पूर्वाह्न)
श्री आलोक पाण्डेय	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500	27.01.2005 (पूर्वाह्न)

के. पद्मनाभन  
अवर सचिव

-----

सं. 18/1(12)/2004-ईआर/498--राष्ट्रपति, श्री गणेशन सिवरामन, वैज्ञानिक सहायक/डी (वेतनमान रु. 7,450-225-11,500) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) को दिनांक अगस्त 01, 2004 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक उसी बोर्ड में रु. 8,000-275-13,500 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

के. पद्मनाभन  
अवर सचिव

-----

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्याणकम-603 102, दिनांक 16 फरवरी 2005

सं. इगापअके/पीएफ/6460/2004-प/62--राष्ट्रपति, डॉ. अरित्रा बेनर्जी को इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्याणकम में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "डी" के पद पर प्रारंभिक वेतन रु. 10,000/- पर वेतनमान रु. 10000-325-15200/- में दिनांक 21.12.2004 के पूर्वाह्न की प्रभावी तिथि से अगले आदेश तक अस्थाई क्षमता में नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

-----

मुंबई-400001, दिनांक 16 फरवरी 2005

सं. पऊआ-1(1) 05/7--राष्ट्रपति, वर्ष 2005 के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग (पऊआ) का निम्नानुसार पुनर्गठन करते हैं :--

1. डॉ. अनिल काकोडकर, -- अध्यक्ष (पदेन)  
सचिव, भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग
2. श्री पृथ्वीराज चव्वाण, -- सदस्य  
राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय

3. श्री एम. के. नारायणन, -- सदस्य  
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
4. श्री टी. के. ए. नायर, -- सदस्य  
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
5. श्री बी. के. चतुर्वेदी, -- सदस्य  
मंत्रिमंडल सचिव
6. डॉ. राकेश मोहन, -- सदस्य  
सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
7. श्री एस. के. दास, -- सदस्य (वित्त)  
वित्तीय सलाहकार एवं पदेन सचिव,  
भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग
8. श्री प्रो. सी. एन. आर. राव, -- सदस्य  
मानद अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू,  
प्रगत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर
9. डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन, -- सदस्य  
पूर्व सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग एवं  
पूर्व अध्यक्ष, पऊआ
10. प्रो. पी. रामाराव, -- सदस्य  
इसरो डॉ. ब्रह्म प्रकाश प्रतिष्ठित प्रोफेसर,  
अध्यक्ष, बीआरएनएस एवं पूर्व अध्यक्ष,  
ईआरबी
11. डॉ. एस. बनर्जी, -- सदस्य  
निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र,  
मुंबई

के. मुरलीधर  
सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आई टी सी होटल्स फाइनेंस  
एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 जनवरी 2004

सं. (560) (3)/एस.ई.एस./417/55-58569/32--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अनन्तान पर मैसर्स आई टी सी होटल्स फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रोमीनेन्ट कन्स्ट्रक्शन टीम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 फरवरी 2005

सं. (560) (3)/55/13193/1845--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अनातान पर मैसर्स प्रोमीनेन्ट कन्स्ट्रक्शन टीम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेडस्टोन इन्टरनेशनल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 सितम्बर 2003

सं. (560) (3)/एस.ई.एस./62/55/95132/500--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अनातान पर मैसर्स मेडस्टोन इन्टरनेशनल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दून लैण्ड एण्ड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. एल.सी. (560)/एस.ई.एस./5296/10187--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दून लैण्ड एण्ड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्पतरू मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. एल.सी./560 (3)/4857/10189--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कल्पतरू मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोमीसन्हा एग्रीकल्चर एण्ड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. एल.सी. (560) एस. ई. एस./21091/10191--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोमीसन्हा एग्रीकल्चर एण्ड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आदर्श ज़िमखाना प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 17 फरवरी 2005

सं. 27927/आर.ओ.सी.04/जे.टी.ए./560(एस.ई.एस.)/2005/6258--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स आदर्श ज़िमखाना प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. मीना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ताज ज़िमखाना प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 17 फरवरी 2005

सं. 24480/आर.ओ.सी.04/जे.टी.ए./560(एस.ई.एस.)/2005/6261--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स ताज ज़िमखाना

प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. मीना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रियेटिव लैडर फैशनस  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 8 फरवरी 2005

सं. एस.टी.ए./एन.के.आर./9027/560 (3)/2004-2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स क्रियेटिव लैडर फैशनस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. ए. एम. पी. रत्नसामी  
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत  
आवेदन के मामले में।

मुंबई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560 (3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20-9-2000 के पत्र सं.-1/5/2000 सी.एल.वी. के परिपत्र सं.-10/2000 द्वारा पत्र के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	56248	मैसर्स मझदा होल्डिंग्स प्रा. लि.
2.	18839	मैसर्स अग्रवाल पब्लिशर्स प्रा. लि.
3.	41882	मैसर्स सुभकर टेक्सटाइल्स प्रा. लि.

1	2	3
4.	56455	मैसर्स चेरी सिस्टम्स प्रा. लि.
5.	94512	मैसर्स अस्टोनिश कॉस्मेटिक प्रा. लि.
6.	68348	मैसर्स स्मिथ इंजीनियरिंग मार्केटिंग प्रा. लि.
7.	56562	मैसर्स ब्रिज मेटल्स प्रा. लि.
8.	75400	मैसर्स जी. एम. एग्रो-फूड प्रोडक्ट्स लि.
9.	96978	मैसर्स अल्मेडा कैपिटल लि.
10.	56405	मैसर्स अटिक्स्ट कम्प्युटर्स (इंडिया) प्रा. लि.
11.	112730	मैसर्स माता धनलक्ष्मी फाइनेंस प्रा. लि.
12.	69067	मैसर्स दाकले फाइनेंस प्रा. लि.
13.	56232	मैसर्स गणेश रेडियो एण्ड टी.वी. एजेंसीज प्रा. लि.
14.	122329	मैसर्स वातसालय एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
15.	52069	मैसर्स राजदान कटिंग डाइज प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत  
आवेदन के मामले में।

मुंबई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560 (3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20-9-2000 के पत्र सं.1/5/2000 सी.एल.वी. के परिपत्र सं.-10/2000 द्वारा पत्र के अनुसरण में किसी व्यक्ति प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	40023	मैसर्स टुवन्टीफस्ट सेंचुरी फेब्रिक्स प्रा. लि.
2.	49768	मैसर्स जाक्स होटल प्रा. लि.
3.	49735	मैसर्स सुश्रुत डायग्नोस्टिक सेंटर प्रा. लि.

1	2	3
4.	49425	मैसर्स इंद्रानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
5.	49232	मैसर्स दमन इंडस्ट्रियल एस्टेट लि.
6.	49078	मैसर्स स्पेयर्स राइट इंजीनियर्स प्रा. लि.
7.	48995	मैसर्स इंडियन लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
8.	48955	मैसर्स परफेक्ट कम्बुशन प्रा. लि.
9.	48576	मैसर्स मेडी कन्टेनर (बोम्बे) प्रा. लि.
10.	47847	मैसर्स आई. वी. आई. कन्ट्रोलस प्रा. लि.
11.	47275	मैसर्स हेमजीलोन सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
12.	47054	मैसर्स यजदा इलेक्ट्रॉनिक्स कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
13.	46336	मैसर्स लो-हा वायर मेन्युफेक्चरिंग प्रा. लि.
14.	45652	मैसर्स प्रिंस केमिकल्स प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत  
आवेदन के मामले में।

मुंबई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560 (3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20-9-2000 के पत्र सं.1/5/2000 सीएल.वी. के परिपत्र सं.-10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	45052	मैसर्स महावीर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2.	22942	मैसर्स आशविन इलेक्ट्रोमेट (इंडिया) लि.
3.	45864	मैसर्स रामला पब्लिशर्स एण्ड कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
4.	105601	मैसर्स टफ प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि.

1	2	3
5.	42902	मैसर्स राह फुटवेअर्स प्रा. लि.
6.	25738	मैसर्स साइंटिफिक रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन प्रा. लि.
7.	72112	मैसर्स जारहक पोलोमर्स प्रा. लि.
8.	44918	मैसर्स अक्षर डोर्स प्रा. लि.
9.	15192	मैसर्स महाराष्ट्र गिनरोज प्रा. लि.
10.	31498	मैसर्स प्लेनुम फाइनेंसियल एण्ड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) प्रा. लि.
11.	18705	मैसर्स शशी प्रोपर्टीज एण्ड इंडस्ट्रीस लि.
12.	40610	मैसर्स प्राइमट्रिडम टी. वी. प्रोडक्शन प्रा. लि.
13.	38085	मैसर्स मास टैक्सटाईल्स प्रा. लि.
14.	40555	मैसर्स ग्लेक्सी इन्फोरमेशन सिस्टम्स एण्ड टेक्नालॉजी लि.
15.	16018	मैसर्स प्लेनेट ट्रेडर्स प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत  
आवेदन के मामले में।

मुंबई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560 (3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20-9-2000 के पत्र सं.1/5/2000 सीएल.वी. के परिपत्र सं.-10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	55413	मैसर्स कलान्वर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2.	48550	मैसर्स रामट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रा. लि.
3.	51762	मैसर्स चिराग ग्रेनाइट लि.
4.	116887	मैसर्स एगवान्टेज फूड्स प्रा. लि.

1	2	3
5.	59865	मैसर्स वेलडन एल्युमिनियम लि.
6.	59305	मैसर्स होटल भाग्यश्री लि.
7.	65682	मैसर्स स्टैंडर्ड फैशन एक्सपोर्ट प्रा. लि.
8.	43404	मैसर्स सुमित कन्सलटेंट्स प्रा. लि.
9.	112914	मैसर्स खानदेश एसिटलाइन एण्ड ऑक्सीजन प्रा. लि.
10.	103659	मैसर्स सनशाइन मोटल्स प्रा. लि.
11.	89482	मैसर्स राखम ट्रेडिंग प्रा. लि.
12.	108033	मैसर्स स्वांग फास्टर प्रा. लि.
13.	83181	मैसर्स श्याम इक्विन्स प्रा. लि.
14.	23173	मैसर्स मिर्च पैकेजिंग प्रा. लि.
15.	18969	मैसर्स जेस गारमेट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत  
आवेदन के मामले में।

मुंबई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560 (3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20-9-2000 के पत्र सं.1/5/2000 सीएल.वी. के परिपत्र सं.10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	45044	मैसर्स खम्वती डायमंड टूल्स प्रा. लि.
2.	41432	मैसर्स लीजेन्ड लीजिंग प्रा. लि.
3.	63530	मैसर्स ग्रान्ट केमिकल्स प्रा. लि.
4.	72624	मैसर्स नाग प्रोटीन्स (इंडिया) लि.

1	2	3
5.	42843	मैसर्स क्वेलकर फ्लेक्सपेक प्रा. लि.
6.	34761	मैसर्स अनमोल बिल्डर्स प्रा. लि.
7.	93903	मैसर्स वैष्णव कैपिटल प्रा. लि.
8.	50189	मैसर्स परसुराम आरगेनिक्स प्रा. लि.
9.	88557	मैसर्स टाहगर कैपिटल एण्ड फाइनेंस प्रा. लि.
10.	33454	मैसर्स अंकित एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
11.	22254	मैसर्स सोनल सोप्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
12.	99897	मैसर्स राजयश लीजिंग एण्ड फाइनेंस प्रा. लि.
13.	92020	मैसर्स श्री साई गणेश अर्थ-मूवर्स प्रा. लि.
14.	97515	मैसर्स एल एस सिमको (इंडिया) प्रा. लि.
15.	19507	मैसर्स बेलगांव कॉमर्शियल एजेंसीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत  
आवेदन के मामले में।

मुंबई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560 (3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20-9-2000 के पत्र सं.1/5/2000 सीएल.वी. के परिपत्र सं.10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	71295	मैसर्स इंटरकोन इन्वेस्टमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
2.	47578	मैसर्स ड्रीम रिवर विलेज रीसोर्ट प्रा. लि.
3.	34490	मैसर्स श्री कृपा ट्रेड एण्ड एजेंसी लि.
4.	76346	मैसर्स क्षीतिज फाइनेंसियल सर्विसेज प्रा. लि.

1	2	3
5.	28661	मैसर्स पंगनूर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.
6.	41943	मैसर्स श्री भगवान लीज एण्ड फाइनैस लि.
7.	37166	मैसर्स कौशल फास्टर प्रा. लि.
8.	13024	मैसर्स राम राज्य सोशल क्लब लि.
9.	25987	मैसर्स मोनाप्रिंसी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
10.	25213	मैसर्स एस. वी. कथरानी फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
11.	31181	मैसर्स स्क्रीन इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
12.	33166	मैसर्स यूनीवर्सल क्लाय मेन्यूफेक्चर्स प्रा. लि.
13.	119574	मैसर्स स्ट्रैंड होटल प्रा. लि.
14.	104676	मैसर्स ए. वी. फिन सीक्यूरिटीज लि.
15.	100531	मैसर्स चेतन बाय डेकोर प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

1	2	3
6.	43175	मैसर्स हरेश इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
7.	42450	मैसर्स प्रीमियर ब्लो पेक इंडस्ट्रीस प्रा. लि.
8.	42285	मैसर्स केपी लीसींग प्रा. लि.
9.	42270	मैसर्स एफीसीयेंट इलेक्ट्रोमेक प्रा. लि.
10.	42220	मैसर्स मतलाराम एण्ड सन्स टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
11.	42098	मैसर्स लोटस सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रा. लि.
12.	41786	मैसर्स निमेश सेल्स प्रा. लि.
13.	41750	मैसर्स युनिलेब डाइनोस्टिक सेन्टर प्रा. लि.
14.	41230	मैसर्स कैनवील कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्रा. लि.
15.	41098	मैसर्स सुभाष एयरकंडिशनिंग प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन के मामले में।

मुम्बई, दिनांक 18 फरवरी 2005

कम्पनी अधिनियम, 1956 और फास्ट ट्रैक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन के मामले में।

मुम्बई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल.वी. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	45428	मैसर्स रिक्की केम प्लास्ट प्रा. लि.
2.	45016	मैसर्स तुन्गा इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
3.	43534	मैसर्स जेथवानी इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
4.	43330	मैसर्स रोमान्स सोन्येटिक्स प्रा. लि.
5.	43278	मैसर्स श्री सती जती कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेन्ट लि.

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल.वी. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	51402	मैसर्स जुगल फेब्रीकेटर्स प्रा. लि.
2.	52368	मैसर्स रमेश कुलकर्णी कम्युनिकेशंस प्रा. लि.
3.	50849	मैसर्स राईकुंडलीया फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
4.	50828	मैसर्स रीक्रेक इलेक्ट्रानिक्स (बोम्बे) प्रा. लि.
5.	53597	मैसर्स श्री बालाजी कोपीअर सर्विसेस प्रा. लि.
6.	51412	मैसर्स जे. जसवंतलाल एण्ड ब्रदर्स प्रा. लि.
7.	42950	मैसर्स रीखाब सिन्थेटिक्स प्रा. लि.

1	2	3
8.	38550	मैसर्स मुगदीप फेब्रीक्स प्रा. लि.
9.	76183	मैसर्स जी. एम. ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.
10.	34464	मैसर्स जे. आर. शाह मेडीकल फाऊंडेशन
11.	100470	मैसर्स प्रवीण लीसींग प्रा. लि.
12.	72949	मैसर्स प्रवीण सेप्टी इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्रा. लि.
13.	44643	मैसर्स गायत्री विन्याल प्रा. लि.
14.	81794	मैसर्स नीलसुना इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
15.	63615	मैसर्स रूजीकोन सर्जिकल्स प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्टर  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत आवेदन के मामले में।

मुम्बई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसार में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल.बी. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पत्र के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कम्पनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती है तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	93065	मैसर्स प्रभावशाली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि.
2.	88500	मैसर्स एन वैकुम कोटर प्रा. लि.
3.	44496	मैसर्स उत्तम डायमंड टूल्स एंड सिन्टरड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
4.	37553	मैसर्स भैरव बिल्डर्स प्रा. लि.
5.	36443	मैसर्स अलमेईडा बिल्डर्स एंड लैन्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
6.	100750	मैसर्स पाटिल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
7.	7641	मैसर्स नीला प्रोडक्ट्स लि.

1	2	3
8.	3325	मैसर्स जे. बी. मानेकजी एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
9.	78897	मैसर्स छेदा बेअरींग्स प्रा. लि.
10.	23171	मैसर्स प्रकाश एग्रो इंडस्ट्रीस प्रा. लि.
11.	25163	मैसर्स एम. सी. कथरानी इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस प्रा. लि.
12.	96229	मैसर्स रेपेक इंडिया प्रा. लि.
13.	12997	मैसर्स के. एस. पी. मैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीस प्रा. लि.
14.	65943	मैसर्स सोटेक्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
15.	25162	मैसर्स जे. सी. खथरानी इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस प्रा. लि.
16.	27551	मैसर्स सी. ओ. एम. एजेंसीस

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्टर  
महाराष्ट्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत आवेदन के मामले में।

मुम्बई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसार में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल.बी. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पत्र के अनुसरण में किसी व्यक्ति प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कंपनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती है तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कंपनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कंपनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	56757	मैसर्स असदीक्का-इल-असदीक्का एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2.	77759	मैसर्स काशी एग्रो इंडस्ट्रीज लि.
3.	31973	मैसर्स यूनिवर्सल इंटरमीडियेट्स प्रा. लि.
4.	58563	मैसर्स पारसमनी कैपिटल मार्केट्स लि.
5.	59988	मैसर्स प्रोफेशनल फूड सर्विस प्रा. लि.
6.	58353	मैसर्स बंधीया बिल्डर्स प्रा. लि.
7.	56866	मैसर्स कुसुमगर अप्परेल टेक्सटाइल्स प्रा. लि.

1	2.	3
8.	55858	मैसर्स अनुराधा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
9.	55342	मैसर्स कलपक इंडस्ट्रीज लि.
10.	55109	मैसर्स यश एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रा. लि.,
11.	54740	मैसर्स वीनायल ओरगेनिक्स प्रा. लि.
12.	54659	मैसर्स रीजेन्सी इन् (अहमदाबाद) प्रा. लि.
13.	54506	मैसर्स नेयोक्स कैमीकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
14.	53124	मैसर्स कुलक स्टील इंडस्ट्रीज लि.
15.	52759	मैसर्स टेसिट फायनान्स एन्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम  
के अंतर्गत आवेदन के मामले में।

मुम्बई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि  
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसार  
में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र  
सं. 1/5/2000 सी.एल.बी. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के  
अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई  
आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां  
लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कंपनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं  
दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कंपनियां  
विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कंपनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	107538	मैसर्स राजमुद्रा कोनकास्ट प्रा. लि.
2.	107862	मैसर्स अरवी कम्प्यूटेक लि.
3.	109263	मैसर्स विजयात्म इन्वेलर्स प्रा. लि.
4.	109848	मैसर्स कैलाश मोनेटरी सर्विसेस प्रा. लि.
5.	110021	मैसर्स जयक्रीयन सॉल्ट सप्लाय प्रा. लि.
6.	110047	मैसर्स क्रियोगेम प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
7.	110857	मैसर्स शलोम थर्मोपैक प्रा. लि.
8.	111506	मैसर्स आर.एस. फोइल्स प्रा. लि.
9.	111582	मैसर्स इन्स्ट्रुमेंट्स एन्ड मशीन्स (बोम्बे) प्रा. लि.
10.	112784	मैसर्स युनाइटेड अर्थमूवर्स प्रा. लि.
11.	112842	मैसर्स सेल्यूट मार्केटिंग लिक्स प्रा. लि.

1	2	3
12.	14749	मैसर्स फेडरेशन आफ मैन मेड टेक्सटाईल्स ट्रेडर्स एसोसिएशन
13.	98082	मैसर्स समलोट (इंडिया) ट्रेडर्स प्रा. लि.
14.	27486	मैसर्स अताश इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम  
के अंतर्गत आवेदन के मामले में।

मुम्बई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि  
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसार  
में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र  
सं. 1/5/2000 सी.एल.बी. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसार  
में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति  
हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित  
रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कंपनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं  
दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कंपनियां  
विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कंपनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	18740	मैसर्स इसडी इन्डेंटिंग हाऊस प्रा. लि.
2.	107332	मैसर्स जयसन्स फ्यूल पाईप्स प्रा. लि.
3.	67151	मैसर्स ब्रह्मचैतन्य ओफसेट प्रा. लि.
4.	20498	मैसर्स कांतीलाल केशवलाल अप्लाइन्सेस प्रा. लि.
5.	27879	मैसर्स खेतान क्लोथ मिल्स प्रा. लि.
6.	27458	मैसर्स रिखव ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.
7.	27286	मैसर्स रनदा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
8.	27103	मैसर्स कोन्सोलिडेटेड ट्रांसपोर्ट्स प्रा. लि.
9.	26702	मैसर्स डेलस्टार शिपिंग एंड ट्रेडिंग प्रा. लि.
10.	26252	मैसर्स पुरोहित ऑटो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
11.	28182	मैसर्स श्री "एम" फाइनेन्शियल इन्वेस्टमेंट एंड कन्सलटेन्स लि.
12.	29713	मैसर्स टीपी प्लास्टिक्स प्रा. लि.
13.	29712	मैसर्स इरमक प्लास्टिक्स प्रा. लि.
14.	29711	मैसर्स शरद प्लास्टिक्स प्रा. लि.
15.	25994	मैसर्स ननगत ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अंतर्गत आवेदन के मामले में।

मुम्बई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल.व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कंपनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कंपनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कंपनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	22972	मैसर्स रेखारेश मेनेजमेंट कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
2.	22818	मैसर्स रामा होटल्स प्रा. लि.
3.	22082	मैसर्स डायना टेक्स्टकेम प्रा. लि.
4.	21293	मैसर्स जे. जी. साहा क्रीम्लोन प्रा. लि.
5.	21008	मैसर्स देवयानी इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
6.	20799	मैसर्स वेस्टर्न इंडिया फिशरीस प्रा. लि.
7.	20547	मैसर्स पानाफ्रीक एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
8.	1210	मैसर्स चाकाहटी एण्ड ठाकरसी प्रा. लि.
9.	5276	मैसर्स एंगलो अमेरिकन डीय स्टफ कार्पोरेशन प्रा. लि.
10.	11353	मैसर्स सौराष्ट्र इलेक्ट्रीकल एण्ड मेटल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
11.	13376	मैसर्स क्लिक इंडस्ट्रीयल सर्विसिज प्रा. लि.
12.	15777	मैसर्स हीरो होल्डिंग्स प्रा. लि.
13.	17837	मैसर्स ऑल इंडिया मैन मेड टेक्सटाइल मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन लि.
14.	19277	मैसर्स आशा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
15.	19505	मैसर्स गोगटे मिनरल्स प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अंतर्गत आवेदन के मामले में।

मुम्बई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण

में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल.व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कंपनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कंपनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कंपनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	29551	मैसर्स इंदिरा लालवानी मेडीकल रिसर्च सेन्टर
2.	29311	मैसर्स दादलानी रियलटोर्स प्रा. लि.
3.	28944	मैसर्स विश्व भारती इक्विपमेंट लीजिंग कं. प्रा. लि.
4.	28694	मैसर्स श्रीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
5.	28226	मैसर्स अयर हाउसिंग प्रिमिसिज प्रा. लि.
6.	28206	मैसर्स आनंद इनोर्गनोकेम प्रा. लि.
7.	25993	मैसर्स तीनन ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
8.	25607	मैसर्स निजा होल्डिंग प्रा. लि.
9.	25597	मैसर्स कजन होल्डिंग प्रा. लि.
10.	25533	मैसर्स संदर्श इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
11.	24659	मैसर्स शाह मैनेजमेंट एण्ड टेक्सेशन कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
12.	24388	मैसर्स नोशीर कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
13.	24354	मैसर्स अक्मे होल्डिंग प्रा. लि.
14.	24164	मैसर्स ट्रीटोन ऑफ शोर प्रा. लि.
15.	23660	मैसर्स पार्ला हॉस्टल्स प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक स्कीम के अंतर्गत आवेदन के मामले में।

मुम्बई, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2000--एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20.9.2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सी.एल.व्ही. के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति प्राधिकारी आदि को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

निम्नलिखित कंपनियां जब तक उनके विपरीत कोई कारण नहीं दर्शाती हैं तो उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा तथा उक्त कंपनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कंपनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	100676	मैसर्स सौथ कैनरा कैपिटल एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
2.	101425	मैसर्स एडीआई-फीन स्टोक प्रा. लि.
3.	101521	मैसर्स माइक्रो गेट नेटवर्क प्रा. लि.
4.	102106	मैसर्स गोल्ड मोहर कैपिटल एण्ड लीजिंग लि.
5.	102470	मैसर्स साईप्रकाश लीसिंग एण्ड फाइनेंस प्रा. लि.
6.	102946	मैसर्स श्रीनगेश फाइनेंस एण्ड लीजिंग प्रा. लि.

1	2	3
7.	103547	मैसर्स सुरगाना हाईटेक फार्म प्रा. लि.
8.	103604	मैसर्स हेमन्त केटरर्स प्रा. लि.
9.	103699	मैसर्स वेदान्त हर्बल एण्ड प्लांट फॉर्म्युलेशन प्रा. लि.
10.	103879	मैसर्स फाउन्टेनहेड कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
11.	105364	मैसर्स टीटीआई जीपीसी एनर्जी लि.
12.	105532	मैसर्स सुविधा फाइनेंशियल सर्विसिज प्रा. लि.
13.	106523	मैसर्स चव्हांस इन्नो एग्रो फोर्ट्स प्रा. लि.
14.	106778	मैसर्स भारद्वाज एण्ड भारद्वाज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
15.	107162	मैसर्स फास्ट इंजीनियर्स एण्ड ट्रेड प्रा. लि.

श्याम सुन्दर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 19th January 2005

No. A-32013/2/2003-Admn. I—In pursuance of DOP & Trg. O. M. No. 5/15/2003-CS. II dated 23rd December 2004, the President is pleased to appoint Shri Prem Prakash, CSSS to the grade of Senior Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- in the cadre of UPSC on ad hoc basis w.e.f. 01st January to 30th June 2005 or till the regular Senior PPS become available, or till further orders, whichever is earlier.

2. The promotion of Shri Prem Prakash as Senior PPS is purely ad hoc in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Senior PPS of CSSS.

3. This issues in continuation of this office notification No. A-32013/1/99-Admn. I dated 10th September 2004.

S. ANANDAN,  
Under Secretary (Admn.)

No. A-12011/2/98-Admn. I—In pursuance of DOP & Trg. OM No. 5/16/2003-CS. II dated 23rd December 2004, the President is pleased to appoint the following Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS to the Private Secretary Grade (Principal Private Secretary) of CSSS in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the cadre of UPSC on ad hoc basis w.e.f. 01st January to 30th June 2005 or till Select List officers become available, or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri K.K. Sharma
2. Shri B. S. Ghuman
3. Shri R. Mani
4. Shri D. P. Hura
5. Ms. Samburanam Gopu
6. Ms. S. M. Oberoi
7. Shri H. C. Sehgal

2. The promotion of the abovementioned officers as PPS is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade of CSSS.

3. This issues in continuation of this office notification of even number dated 21st July 2004.

S. ANANDAN,  
Under Secretary (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 18th February 2005

No. DP/Pers.I/2005/22/11/41/2000—The President is pleased to appoint the following Superintendents of Police, CBI as Senior Superintendent of Police in the Central Bureau

of Investigation, Special Police Establishment, on promotion, with effect from the dates as mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment as Sr. SP
	S/Shri	
1.	Harbhajan Ram	29.12.2004
2.	P. D. Mecna	29.12.2004
3.	K. B. Singh	29.12.2004
4.	Narain Jha	29.12.2004

Promotion of above officers to the grade of Sr. SP is subject to outcome of CWP No. 5590/99 and 231/2001- filed by Union of India in the High Court of Delhi.

S. D. BAIJAL,  
Administrative Officer (Pers.)

No. DPPERS. I/2005/23/53/3/2002-Pers. I—In pursuance of Govt. of India, Department of Personnel & Training order No. 221/8/2001-AVD. II dated 30.12.2004, Shri A. P. Gopalakrishnan, DSP (under suspension)/CBI, SCB, Chennai has been dismissed from service w.e.f. the forenoon of 9.2.2005.

S. D. BAIJAL,  
Admn. Officer (Pers.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 15th February 2005

No. 2/8/04-Admn-3035—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shrimati Deepa Bajwa, IDES (1983), Deputy Director General, Defence Estates, as Director in the Commission on Central deputation in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from 01st February 2005 (F/N) for a period of five years or till further order, whichever is earlier.

MANGE LAL,  
Dy. Secy.,  
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE

New Delhi-110 003, the 15th February 2005

No. 18/18/97-Adm (FS)—The President is pleased to extend the deputation period of K. V. Ravi Kumar, Assistant Government Examiner of Questioned Documents office of Government Examiner of Questioned Documents on the post of Senior Scientific Officer (Forensic Science) in the Directorate of Forensic Science, New Delhi for a further period of two years (5th & 6th year) with effect from 09.04.2003 to 08.04.2005.

2. This issues with the concurrence of DOPT vide their diary No. E. 11447/8/2004 dated 19.3.2004.

DR. M. S. RAO,  
Director (FS)

#### BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi-110 003, the 11th January 2005

No. 6413/2000-Admn. 1—Approval of the Secretary, Ministry of Home Affairs is hereby conveyed to the extension of deputation period of Shri Jagdip Singh, Assistant Director/Exe., Intelligence Bureau as Vice Principal, Central Detective Training School, Chandigarh for a further period of 4th year with effect from 7.1.2005 to 30.11.2005.

2. This issues with the approval of the Ministry of Home Affairs vide their Diary No. F. 3/HS/04 dated 03.01.2005.

A. K. SOOD,  
Assistant Director (Admn.)

#### DIRECTORATE GENERAL CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110 003, the 15th February 2005

No. O. II-3565/99-CRC (MOs)—On his resignation from service Dr. Nischal V. Yalgi, Medical Officer (IRLA-5063) of 100 Bn RAF, made over charge of his post from the afternoon of 25.10.2004. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force from 25.10.2004 (AN).

J. N. SHARMA,  
Addl. DIG (Pers. I)

The 16th February 2005

No. O. II-3654/05-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Shahnaz Ashraf Khan as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 29.01.2005 till further order. He is posted to 162 Bn.

J. N. SHARMA,  
Addl. DIG (Pers. I)

The 18th February 2005

No. O. II. 4695/05-PF-DC-Pers-I—Consequent on acceptance of notice dated 16.09.2004 for resignation from Government service, Shri Shekhar Kumar, Dy. Comdt. (IRLA No. 4695) of 172 Bn, CRPF, has been relieved from his post on 01.02.2005 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 01.02.2005 (FN).

J. N. SHARMA,  
Addl. DIG (Pers. I)

No. O. II-3651/05-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. S. Surendranath as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 05.01.2005 till further orders. He is posted to 42 Bn.

J. N. SHARMA,  
Addl. DIG (Pers. I)

No. O. II-3653/05-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Anil Kumar Bharti as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 28.01.2005 till further orders. He is posted to 62 Bn.

J. N. SHARMA,  
Addl. DIG (Pers. I)

#### DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 15th February 2005

No. E-32015(4)/2/2002/Pers. I/06—The President is pleased to accept the resignation of Sh. Prashant Khambra, AC (Prob.) NISA CISF Hyderabad with effect from 20.12.2003 (Afternoon).

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

#### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPTT. OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 16th February 2005

No. 803-GE-I/176-98 (Vol. II)—The following IA & AS officers have retired from Government Service from the date shown against their names.

S/Shri	
1. Anirudha Das	Retd. on superannuation wef 31.01.2005 (AN)
2. Binay Kumar Banik	Do.
3. Krishan Lal Arora	Do.

DEEPAK NARAIN  
Asstt. Comptroller & Auditor General (P)

#### OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), DELHI

New Delhi-110 002, the 18th February 2005

No. Admn. O. O. No. 129—Consequent upon his attaining the age of superannuation Sh. Harpal Singh Kapur, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the Service of the Government of India with effect from the afternoon of 30.4.2005.

His date of birth is 10.4.1945 and date of appointment in Govt. Service is 23.11.1963 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (AUDIT), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 17th February 2005

No. Admn. III/Pen/5-2/Vol.IV/612—Shri Sushil Kumar Saha Sr. Audit Officer of this office retired from service on superannuation on 31.01.2005 (AN).

Also Sri Utpal Dasgupta Sr. Audit Officer and Sri Ranendra Nath Samanta, Audit Officer of the office of the Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal retired on superannuation on 31.01.2005 (AN).

J. BHAGAT  
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
KERALA

Thiruvananthapuram, the 14th February 2005

No. O.E./E&C/EIVP/1209—The following Officials of IA&AD retired from Service :—

Sl. No., Name, Designation & Date of retirement

1. Sri K. I. Balachandran, Sr. Accounts Officer, Branch Office, Ernakulam—01.01.2005 (FN) (Voluntary retirement).

2. Smt. P. K. Rajamma, Accounts Officer, Main Office, Trivandrum—31.01.2005 (AN) (Superannuation).

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 15th February 2005

No. OE (Entt)/Pen/10-2/2004-2005—The following officials of the office of the Principal Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram have retired from Government Service on the date noted against their names:—

Sl. No., Name & Designation, Date of Retirement & Remarks

1. Sri P. Damodaran, Senior Audit Officer, 31.01.2005—Superannuation.

2. Sri V. Bhaskaran, Senior Audit Officer, 31.01.2005—Superannuation.

3. Shri T. V. Jacob, Asst. Audit Officer 31.01.2005—Superannuation.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 18th February 2005

No. A-19018/758/84-Admn.(G)—The President is pleased to appoint Shri P. J. Sangai, Assistant Director (Gr. I) (Food), Small Industries Service Institute, Ahmedabad as Deputy Director (Food) on officiating basis under Small Industries Development Organisation in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in the same Institute with effect from the forenoon of 1-2-2005 until further orders.

S. V. N. PILLAI  
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/438/79-Admn.(G)—On attaining the age of superannuation, Shri R. S. Pandey, Deputy Director (Food), Small Industries Service Institute, Ranchi under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 31.1.2005.

S. V. N. PILLAI  
Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF MINES  
(DEPARTMENT OF MINES)  
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 10th February 2005

No. A-19011/249/2005-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri A. Majumdar, Deputy Ore Dressing Officer has been promoted to the post of Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines at Nagpur w.e.f. 27.1.2005 (F.N.).

S. K. BATAV  
Senior Admn. Officer  
For Controller General

No. A-19011/281/96-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri C. S. Gundewar, Superintending Officer (Ore Dressing) has been promoted to the post of Chief Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines at Nagpur w.e.f. 1.2.2005 (F.N.).

S. K. BATAV  
Senior Admn. Officer  
For Controller General

**BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE  
(PERSONNEL DIVISION)**

Mumbai-85, the 14th February 2005

No. PD/7(17)/2004-R-IV/179—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre, appoints the undermentioned officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers/Engineers Grade 'SB' in the same Research Centre with effect from the forenoon of August 1, 2004 except Smt. Ritu M. Agarwal, Sl. No. 4 and Smt. Aruna Kadam, at Sl. No. 8 whose dates of appointment are with effect from the forenoon of August 10, 2004 and August 16, 2004 respectively, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
1.	Dalvi Aditi A. Smt.	SA/C
2.	Sounderajan Suvarna Smt.	SA/C
3.	Venkatesh K.	SA/C
4.	Agarwal Ritu M. Smt.	SA/C
5.	Thangavel S.	SA/C
6.	Vinarkar U. G.	SA/C
7.	Balbudhe A. Y.	SA/C
8.	Kadam Aruna Smt.	SA/C
9.	Raut Vaibhavi V. Smt.	SA/C
10.	Dafauti Sunita L. Smt.	SA/C
11.	Sreekumar K.	SA/C
12.	Kothai Nachier Smt.	SA/C
13.	Mohan C.	SA/C
14.	Rajkumar B.	SA/C
15.	Jyotish Babu M. V.	SA/C
16.	Rajasekhar G.	SA/C
17.	Velmurugan P.	SA/C
18.	Roy Madhumita Kum.	SA/C
19.	Patil U. D.	SA/C
20.	Johnson Bella Smt.	SA/C
21.	Sah Rajkumar	SA/C

K. C. DIVAKARAN,  
Dy. Establishment Officer

No. Ref : PD/13(5)/98-R-III/163—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri G. Hariharan, Asstt. Personnel, Officer PRP, Kalpakkam to officiate as Admn. Officer II in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- in PRP itself with effect from the forenoon of 27th December 2004 on regular basis until further orders.

K. C. DIVAKARAN,  
Dy. Establishment Officer

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**

Mumbai-400 001, the 31st January 2005

No. 20/3(2)/2004-CCS/9—The President is pleased to appoint Smt. A. Bensely, Deputy Establishment Officer (Scale of pay Rs. 10000—15200), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Chief Administrative and Accounts Officer (Scale of pay Rs. 12000-16500) in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad with effect from the forenoon of 13.09.2004 until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

The 14th February 2005

No. 20/3(2)/2004-CCS/5—The President is pleased to appoint Shri K. Mohan Rao, Administrative Officer-III (Scale of pay Rs. 10000-15200), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad of this Department as Chief Administrative and Accounts Officer (Scale of pay Rs. 12000—16500) in the same Directorate on ad hoc basis for the period from 02.07.2004 (FN) to 10.09.2004 (AN).

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

No. 20/3(2)/2004-CCS/6—The President is pleased to appoint Shri R. G. Raghavan, Asstt. Personnel Officer (Scale of pay Rs. 6500—10500), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad of this Department as Administrative Officer III (Scale of pay Rs. 10000-15200) in the same Directorate on ad hoc basis for the period from 02.07.2004 (FN) to 10.09.2004 (AN).

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

No. 21/3(3)/2004-CCS/7—The President is pleased to appoint Smt. R. V. Kochumadhavi, Senior Accounts Officer (Scale of pay Rs. 8000—13500), Directorate of Construction, Services & Estate Management, Mumbai of this Department as Deputy Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10000—15200) in the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Hyderabad with effect from the forenoon of 30.07.2004 until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

No. 22/3(4)/2004-CCS/8—On attaining the age of superannuation, Shri P. V. Prabhakaran, Dy. Director (Scale of pay Rs. 12000—16500), Directorate of Purchase &

Stores, Mumbai of this Department, retired from Government service on 31.12.2004 (AN).

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

No. 20/3/(1)/2004-CCS/Vol. II/10—The President is pleased to appoint Shri V. Vijaya Rami Reddy, Administrative Officer-II (Scale of pay Rs. 7500—12000), Nuclear Fuel Complex, Hyderabad of this Department as Administrative Officer-III (Scale of pay Rs. 10000—15200) in Heavy Water Plant (Talcher) with effect from the forenoon of 28.01.2005 until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

#### CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452 013, the 10th February 2005

No. CAT/Admn/Rect-738/OCES-03/90—The President is pleased to appoint the following Trainee Scientific Officers as Scientific Officer 'C' in the scale of pay Rs. 8000-275-13500 with effect from the forenoon of 1 September 2004 in an officiating capacity in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :—

Sl. Name of the Officer  
No.

1. Shri Shwet Ketu Mishra
2. Shri Prashant Sharma
3. Shri Sanjeev Kumar
4. Shri Subhasish Basak
5. Shri Nitin Lulani
6. Shri Sanyasi Rao Bobili
7. Shri Ravi Shanker Verma
8. Shri Amit Jain
9. Shri C. Kamal
10. Kum Pratima Jain
11. Shri Surendra Yadav
12. Shri Abdurrahim
13. Shri Himanshu Srivastava
14. Shri Saroj Kumar Jena
15. Kum. Amita Chaturvedi
16. Shri Siddhesh Arun Pai
17. Shri Anuj Upadhyay
18. Shri Aniruddha Bose

S. C. JAIN  
Chief Administrative Officer

#### NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 15th February 2005

No. Ref. NFC/PAR-I/03/01/172—The President is pleased to appoint the following personnel as Scientific Officer/

Engineer grade 'C' in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01.09.2004 until further orders.

1. Shri Kiran S. Gopan
2. Shri G. Kiran Kumar
3. Shri Sanjoy Saha
4. Shri Ambarish D. Deshmukh
5. Shri Navin Kumar S Dubey
6. Shri P. Srinivas
7. Shri G. Pradeep Kumar
8. Shri Vinayak B. Deshmukh
9. Shri Swarup Acharya
10. Shri Jagdish Ram Jat

G. KOTESWARA RAO,  
Administrative Officer-III (R)

#### ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 17th February 2005

No. AMD-16/3/91-Rectt./238—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri M. Ashok Kumar, Assistant Accounts Officer (Scale of pay Rs. 7450-225-11500) as Accounts Officer (Scale of pay Rs. 7500-250-12000) in the same Directorate on ad hoc basis with effect from the forenoon of 16.11.2004 to 24.12.2004.

AGNES BENSELY  
Chief Administrative & Accounts Officer

No. AMD-16/3/91-Rectt./239—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Smt. V. Vijaya, UDC in the scale of pay of Rs. 5000-150-8000 (financial upgradation) as Assistant Accounts officer (Scale of pay Rs. 7450-225-11500) in the same Directorate on ad hoc basis with effect from the forenoon of 16.11.2004 to 24.12.2004.

AGNES BENSELY  
Chief Administrative & Accounts Officer

#### (EXTERNAL RELATIONS SECTION)

Mumbai-400 001, the 15th February 2005

No. 18/1/10/2004-ER/499—The President is pleased to appoint the following officers in the Atomic Energy

Regulatory Board (AERB) to the Grade mentioned against their names until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer	Grade on appointment	Scale of pay	Date assumption of charge
1.	S/Shri Gopal Krushna Panda	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500	12.01.2005 F.N.
2.	Rajendra Kumar Chaturvedi	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500	19.01.2005 F.N.
3.	Shri Alok Pandey	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500	27.01.2005 F.N.

K. PADMANABHAN  
Under Secy.

No. 18/1 (12)/2004-ER/498—The President is pleased to appoint Shri Ganesan Sivaraman, Scientific Assistant/D (scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) to the grade of Scientific Officer/C (scale of pay Rs. 8,000-275-13,500) in the same Board with effect from the forenoon of August 01, 2004 until further orders.

K PADMANABHAN,  
Under Secy.

#### INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603 102, the 16th February 2005

No. IGC/PF/6460/2004-R/62—The President is pleased to appoint Dr. Aritra Banerjee in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' on an initial pay of Rs. 10,000/- in the scale of pay Rs. 10000-325-15200/- with effect from the forenoon of 21.12.2004 in a temporary capacity until further orders.

M. VENUGOPALAN  
Chief Administrative Officer

Mumbai-400001, the 16th February 2005

No. AEC-1(1)05/7—The President is pleased to reconstitute the Atomic Energy Commission (AEC) for the year 2005 as detailed below:

- |    |                                                                                      |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Dr. Anil Kakodkar<br>Secretary to the Govt. of India,<br>Department of Atomic Energy | Chairman (ex-officio) |
| 2. | Shri Prithviraj Chavan,<br>Minister of State, Prime Minister's Office                | Member                |

- |     |                                                                                                              |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.  | Shri M. K. Narayanan<br>National Security Advisor                                                            | Member             |
| 4.  | Shri T. K. A. Nair<br>Principal Secretary to the Prime Minister                                              | Member             |
| 5.  | Shri B. K. Chaturvedi<br>Cabinet Secretary                                                                   | Member             |
| 6.  | Dr. Rakesh Mohan<br>Secretary, Department of Economic Affairs                                                | Member             |
| 7.  | Shri S. K. Das<br>Financial Advisor and ex-officio Secretary to the Government of India, Department of Space | Member for Finance |
| 8.  | Prof. C. N. R. Rao<br>Honorary President, Jawaharlal Nehru Centre of Advanced Scientific Research, Bangalore | Member             |
| 9.  | Dr. M. R. Srinivasan<br>Former Member (Energy), Planning Commission & ex Chairman, AEC                       | Member             |
| 10. | Prof. P. Rama Rao<br>ISRO Dr Brahm Prakash Distinguished Professor, Chairman, BRNS & Former Chairman AERB    | Member             |
| 11. | Dr. S. Banerjee<br>Director, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai                                           | Member             |

K. MURALIDHAR,  
Secretary

#### MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ITC Hotels Finance & Investments Limited

New Delhi-110003, the 1st January 2004

No. us/560(3)/SES/417/55-58569/32.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. ITC Hotels Finance & Investments Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prominent Construction Team Private Limited

New Delhi-110019, the 16th February 2005

No. us/560(3)/55/13193/1845.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Prominent Construction Team Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Medstone International India Private Limited

New Delhi-110003, the 18th September 2003

No. us/560(3)/SES/62/55/95132/500.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Medstone International India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Doon Land & Finance Private Limited

Kanpur-208001, the 15th February 2005

No.560(5)LC/SES-5296/10137.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Doon Land & Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
UP & UTTARANCHAL

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalpatru Motors Private Limited

Kanpur-208001, the 15th February 2005

No. 560(3)/LC/4857/10189.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kalpatru Motors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Romeesons Agriculture & Carriers Private Limited

Kanpur-208001, the 15th February 2005

No.560(5)LC/SES-21091/10191.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Romeesons Agriculture & Carriers Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
UP & UTTARANCHAL

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Adarsh Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 17th February 2005

No. 04-27927/ROC/GUj/JTA/U/s. 560 (SES) 2005/6258.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adarsh Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

P. MEENA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Taj Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 17th February 2005

No. 04-24480/ROC/GUj/JTA/U/s. 560 (SES) 2003/6261.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Taj Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved:

P. MEENA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Creative Leather Fashions Private Limited

Bangalore, the 8th February 2005

No. STA/NKR/9027/560(3)/2004-2005.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month from the date hereof the name of the company viz. M/s. Creative Leather Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B.A.M.P. RATHNASAMI  
Dy. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme under section 560  
of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	56248	M/s Mazda Holdings Pvt. Ltd.
2.	18839	M/s Aggarwal Publishers Pvt. Ltd.
3.	41882	M/s Subhakar Textiles Pvt. Ltd.
4.	56455	M/s Cherry Systems Pvt. Ltd.
5.	94512	M/s Astonish Cosmetics Pvt. Ltd.
6.	68348	M/s Smith Engineering Marketing Pvt. Ltd.
7.	56562	M/s Brij Metals Pvt. Ltd.
8.	75400	M/s G. M. Agro-Food Products Ltd.
9.	96978	M/s Almeida Capital Ltd.
10.	56405	M/s Atixt Computers (India) Pvt. Ltd.
11.	112730	M/s Mata Dhanalaxmi Finance Pvt. Ltd.
12.	69067	M/s Dakle Finance Pvt. Ltd.
13.	56232	M/s Ganesh Radio & T. V. Agencies Pvt. Ltd.

	1	2	3
14.	122329	M/s Vatsalya Agro Products Pvt. Ltd.	
15.	52069	M/s Razdan Cutting Dies Pvt. Ltd.	

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme under section 560  
of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	40023	M/s Twentyfirst Century Fabrics Pvt. Ltd.
2.	49768	M/s Zaks Hotel Pvt. Ltd.
3.	49735	M/s Sushrut Diagnostic Centre Pvt. Ltd.
4.	49425	M/s Indrani Industrial Products Pvt. Ltd.
5.	49232	M/s Daman Industrial Estate Ltd.
6.	49078	M/s Spares Right Engineers Pvt. Ltd.
7.	48995	M/s Indian Latex Industries Pvt. Ltd.
8.	48955	M/s Perfect Combustion Pvt. Ltd.
9.	48576	M/s Medi Container (Bombay) Pvt. Ltd.
10.	47847	M/s IVI Controls Pvt. Ltd.
11.	47275	M/s Hemjeelon Synthetics Pvt. Ltd.
12.	47054	M/s Yazda Electronics Consultants Pvt. Ltd.
13.	46336	M/s Lo-Ha Wire Manufacturing Pvt. Ltd.
14.	45652	M/s Prince Chemicals Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme under section 560 of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	45052	M/s Mahabir Exports Pvt. Ltd.
2.	22942	M/s Ashwin Electromat (India) Ltd.
3.	45864	M/s Ramlaw Publishers & Consultants Pvt. Ltd.
4.	105601	M/s Tuff Products (India) Pvt. Ltd.
5.	42902	M/s Shah Footwears Pvt. Ltd.
6.	25738	M/s Scientific Research & Development Foundation Pvt. Ltd.
7.	72112	M/s Zarhak Polymers Pvt. Ltd.
8.	44918	M/s Akshar Doors Pvt. Ltd.
9.	15192	M/s Maharashtra Wineries Pvt. Ltd.
10.	31498	M/s Plenum Financial & Investment (India) Pvt. Ltd.
11.	18705	M/s Shashi Properties & Industries Ltd.
12.	40610	M/s Primetime T. V. Productions Pvt. Ltd.
13.	38085	M/s MAS Textiles Pvt. Ltd.
14.	40555	M/s Galaxy Information Systems & Technology Ltd.
15.	16018	M/s Plynet Traders Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme under section 560 of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act,

1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	55413	M/s Kalavar Exports Pvt.Ltd.
2.	48550	M/s Ramtronix Engineering Pvt. Ltd.
3.	51762	M/s Chirag Granites Ltd.
4.	116887	M/s Egvantage Foods Pvt. Ltd.
5.	59865	M/s Veldon Aluminium Ltd.
6.	59305	M/s Hotel Bhagyashree Ltd.
7.	65682	M/s Standard Fashion Exports Pvt. Ltd.
8.	43404	M/s Summit Consultants Pvt. Ltd.
9.	112914	M/s Khandesh Acyteline & Oxygen Pvt. Ltd.
10.	103659	M/s Sunshine Motels Pvt. Ltd.
11.	89482	M/s Rakham Trading Pvt. Ltd.
12.	108033	M/s Swang Fastners Pvt. Ltd.
13.	83181	M/s Smash Equines Pvt. Ltd.
14.	23173	M/s Mirp Packaging Pvt. Ltd.
15.	18969	M/s Jays Garments and Exports Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme under section 560 of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week

hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	45044	M/s Khambati Daimond Tools Pvt. Ltd.
2.	41432	M/s Legend Leasing Pvt. Ltd.
3.	63530	M/s Grant Chemicals Pvt. Ltd.
4.	72624	M/s Nag Proteins (India) Ltd.
5.	42843	M/s Kuwelkar Flexpak Pvt. Ltd.
6.	34761	M/s Anamol Builders Pvt. Ltd.
7.	93903	M/s Vaishnav Capital Pvt. Ltd.
8.	50189	M/s Parshuram Organics Pvt. Ltd.
9.	88557	M/s Tiger Capital & Finance Pvt. Ltd.
10.	33454	M/s Ankit Exports Pvt. Ltd.
11.	22254	M/s Sonal Soaps & Chemicals Pvt. Ltd.
12.	99897	M/s Rajya Leasing & Finance Pvt. Ltd.
13.	92020	M/s Shree Sai Ganesh Earth Movers Pvt. Ltd.
14.	97515	M/s Ell Ess Simaco (India) Pvt. Ltd.
15.	19507	M/s The Belgaum Commercial Agencies & Investments Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme under section 560 of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	71295	M/s Intercon Investment Services Pvt. Ltd.
2.	47578	M/s Dream River Village Resort Pvt. Ltd.

1	2	3
3.	34490	M/s Shree Krupa Trade & Agency Ltd.
4.	76346	M/s Kshitiz Financial Services Pvt. Ltd.
5.	28661	M/s Punganur Consultancy Services Pvt. Ltd.
6.	41943	M/s Shree Bhagwan Lease and Finance Ltd.
7.	37166	M/s Kaushal Fastners Pvt. Ltd.
8.	13024	M/s Ram Rajya Social Club Ltd.
9.	25987	M/s Minaprisi Trading & Investment Pvt. Ltd.
10.	25213	M/s S. V. Kathrani Finance and Investment Pvt. Ltd.
11.	31181	M/s Screen Investment Pvt. Ltd.
12.	33166	M/s Universal Cloth Manufactures Pvt. Ltd.
13.	119574	M/s Strand Hotel Pvt. Ltd.
14.	104676	M/s AV Fin Securities Ltd.
15.	100531	M/s Chetan Bath Decor Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme under section 560 of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	45428	M/s Ricci Chem Plast Pvt. Ltd.
2.	45016	M/s Tunga Engineering Works Pvt. Ltd.
3.	43534	M/s Jethwani Investment Pvt. Ltd.
4.	43330	M/s Romance Synthetics Pvt. Ltd.

1	2	3
5.	43278	M/s Shri Sati Jati Construction & Development Ltd.
6.	43175	M/s Haresh Investments Pvt. Ltd.
7.	42450	M/s Premier Blow Pack Industries Pvt. Ltd.
8.	42285	M/s Kaypee Leasing Pvt. Ltd.
9.	42270	M/s Efficient Electromech Pvt. Ltd.
10.	42220	M/s Matlaram & Sons Textiles Pvt. Ltd.
11.	42098	M/s Lotus System Development Pvt. Ltd.
12.	41786	M/s Nimesh Sales Pvt. Ltd.
13.	41750	M/s Unilab Diagnostic Centre Pvt. Ltd.
14.	41230	M/s Canvil Consultancy Services Pvt. Ltd.
15.	41098	M/s Subhash Airconditioning Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme under section 560  
of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	51402	M/s Jugal Fabricators Pvt. Ltd.
2.	52368	M/s Ramesh Kulkarni Communications Pvt. Ltd.
3.	50849	M/s Raikundaliya Food Products Pvt. Ltd.
4.	50828	M/s Rikrak Electronics (Bombay) Pvt. Ltd.
5.	53597	M/s Shree Balaji Copier Services Pvt. Ltd.
6.	51412	M/s J. Jaswantlal & Bros Pvt. Ltd.
7.	42950	M/s Rikhab Synthetics Pvt. Ltd.

1	2	3
8.	38550	M/s Mrugdeep Fabrics Pvt. Ltd.
9.	76183	M/s G. M. Transport Pvt. Ltd.
10.	34464	M/s J. R. Shah Medical Foundation.
11.	100470	M/s Pranidh Leasing Pvt. Ltd.
12.	72949	M/s Prathibha Safety Instruments Pvt. Ltd.
13.	44643	M/s Gayatri Vinyl Pvt. Ltd.
14.	81794	M/s Nilsuna Investment Pvt. Ltd.
15.	63615	M/s Rujikon Surgicals Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme under section 560  
of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	93065	M/s Prabhavshali Builders & Developers Pvt. Ltd.
2.	88500	M/s Avon Vacuum Coater Pvt. Ltd.
3.	44496	M/s Uttam Diamond Tools & Sintered Products Pvt. Ltd.
4.	37553	M/s Shree Bhairav Builders Pvt. Ltd.
5.	36443	M/s Almeida Builders & Land Developers Pvt. Ltd.
6.	100750	M/s Patil Exports Pvt. Ltd.
7.	7641	M/s Nila Products Ltd.
8.	3325	M/s J. B. Maneckji and Company Pvt. Ltd.
9.	78897	M/s Chheda Bearings Pvt. Ltd.

1	2	3
10.	23171	M/s Prakash Agro Industries Pvt. Ltd.
11.	25163	M/s M. C. Kathrani Investment & Finance Pvt. Ltd.
12.	96229	M/s Raypack India Pvt. Ltd.
13.	12997	M/s K. S. P. Mechanical & Electronics Inds. Pvt. Ltd.
14.	65943	M/s Sotex Exports Pvt. Ltd.
15.	25162	M/s J. C. Katharani Investment & Finance Pvt. Ltd.
16.	27551	M/s C. O. S. Agencies

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme under section 560  
of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	56757	M/s Asdiqaa-Al-Asdiqaa Exports Pvt. Ltd.
2.	77759	M/s Kashi Agro Industries Ltd.
3.	31973	M/s Universal Intermediates Pvt. Ltd.
4.	58563	M/s Parasmani Capital Markets Ltd.
5.	59988	M/s Professional Food Service Pvt. Ltd.
6.	58353	M/s Banthia Builders Pvt. Ltd.
7.	56866	M/s Kusumgar Apparel Textiles Pvt. Ltd.
8.	55858	M/s Anuradha Exports Pvt. Ltd.
9.	55342	M/s Kalpak Industries Ltd.
10.	55109	M/s Yash Export Import Pvt. Ltd.
11.	54740	M/s Vinyl Organics Pvt. Ltd.

1	2	3
12.	54659	M/s Regency Inn (Ahmedabad) Pvt. Ltd.
13.	54506	M/s Nemox Chemical Industries Pvt. Ltd.
14.	53124	M/s Chhulak Steel Industries Ltd.
15.	52759	M/s Tacit Finance & Investment Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme under section 560  
of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	107538	M/s Rajmudra Concast Pvt. Ltd.
2.	107862	M/s Arvi Computech Ltd.
3.	109263	M/s Vijayatam Dwellers Pvt. Ltd.
4.	109848	M/s Kailash Monetary Services Pvt. Ltd.
5.	110021	M/s Jaikrian Salt Supply Pvt. Ltd.
6.	110047	M/s Cryptogam Products Pvt. Ltd.
7.	110857	M/s Shalom Thermopack Pvt. Ltd.
8.	111506	M/s R. S. Foils Pvt. Ltd.
9.	111582	M/s Instruments & Machines (Bombay) Pvt. Ltd.
10.	112784	M/s United Earth Movers Pvt. Ltd.
11.	112842	M/s Salute Marketing Links Pvt. Ltd.
12.	114749	M/s Federation of Man Made Textiles Traders Associations.
13.	98082	M/s Samlot (India) Travels Pvt. Ltd.
14.	27486	M/s Atash Engineering Industries Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme under section 560 of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	18740	M/s Esdee Indenting House Pvt. Ltd.
2.	107332	M/s Jaysons Fuel Pipes Pvt. Ltd.
3.	67151	M/s Brahachaitanya Offset Pvt. Ltd.
4.	20498	M/s Kantilal Keshavlal Appliances Pvt. Ltd.
5.	27879	M/s Khetan Cloth Mills Pvt. Ltd.
6.	27458	M/s Rikhav Trading Company Pvt. Ltd.
7.	27286	M/s Randal Exports Pvt. Ltd.
8.	27103	M/s Consolidated Transporters Pvt. Ltd.
9.	26702	M/s Delstar Shipping & Trading Pvt. Ltd.
10.	26252	M/s Purohit Auto Products Pvt. Ltd.
11.	28182	M/s Three "M" Financial Investment & Consultants Ltd.
12.	29713	M/s TP Plastics Pvt. Ltd.
13.	29712	M/s Irmic Plastics Pvt. Ltd.
14.	29711	M/s Shard Plastics Pvt. Ltd.
15.	25994	M/s Nangat Trading & Investment Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme under section 560 of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act,

1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	22972	M/s Rekharesh Management Consultants Pvt. Ltd.
2.	22818	M/s Rama Hotels Pvt. Ltd.
3.	22082	M/s Dyna Textchem Pvt. Ltd.
4.	21293	M/s J. G. Shah Crimpon Pvt. Ltd.
5.	21008	M/s Devyani Investment Pvt. Ltd.
6.	20799	M/s Western India Fisheries Pvt. Ltd.
7.	20547	M/s Panafric Exports Pvt. Ltd.
8.	1210	M/s Chacaphaty & Thackersey Pvt. Ltd.
9.	5276	M/s Anglo American Dye Stuff Corporation Pvt. Ltd.
10.	11353	M/s Saurashtra Electrical & Metal Industries Pvt. Ltd.
11.	13376	M/s Killick Industrial Services Pvt. Ltd.
12.	15777	Hiro Holdings Pvt. Ltd.
13.	17837	M/s All India Man Made Textile Mfgs. Association Ltd.
14.	19277	M/s Asha Expoprts Pvt. Ltd.
15.	19505	M/s Gogte Minerals Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme under section 560 of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority

etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	29551	M/s Indira Lalwani Medical Research Centre.
2.	29311	M/s Dadlani Realtors Pvt. Ltd.
3.	28944	M/s Vishwa Bharath Equipment Leasing Co. Pvt. Ltd.
4.	28694	M/s Shreeji Distributors Pvt. Ltd.
5.	28226	M/s Ayr Housing Premises Pvt. Ltd.
6.	28206	M/s Anand Inorganochem Pvt. Ltd.
7.	25993	M/s Tinan Trading & Investment Pvt. Ltd.
8.	25607	M/s Nija Holding Pvt. Ltd.
9.	25597	M/s Cajan Holding Pvt. Ltd.
10.	25533	M/s Sandarsh Investments Pvt. Ltd.
11.	24659	M/s Shah Management & Taxation Consultants Pvt. Ltd.
12.	24388	M/s Noshir Consultants Pvt. Ltd.
13.	24354	M/s Acme Holdings Pvt. Ltd.
14.	24164	M/s Triton Offshore Pvt. Ltd.
15.	23660	M/s Parla Hotels Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme under section 560 of the Companies Act, 1956

Mumbai-400 002, the 18th February 2005

No. ROC/560(3)/2000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof, the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	100676	M/s South Kanara Capital & Finance Pvt. Ltd.
2.	101425	M/s ADI-Fin Stock Pvt. Ltd.
3.	101521	M/s Micro Gate Network Pvt. Ltd.
4.	102106	M/s Gold Mohar Capital & Leasing Ltd.
5.	102470	M/s Saiprakash Leasing & Finance Pvt. Ltd.
6.	102946	M/s Shringesh Finance & Leasing Pvt. Ltd.
7.	103547	M/s Surgana Hitech Farm Pvt. Ltd.
8.	103604	M/s Hemant Caterers Pvt. Ltd.
9.	103699	M/s Vedant Herbal & Plant Formulation Pvt. Ltd.
10.	103879	M/s Fountainhead Consultants Pvt. Ltd.
11.	105364	M/s TTI GPC Energy Ltd.
12.	105532	Suvedha Financial Services Pvt. Ltd.
13.	106523	M/s Chavan's Inno Agro Forts Pvt. Ltd.
14.	106778	M/s Bharadwaj & Bharadwaj Management Consultants Pvt. Ltd.
15.	107162	M/s Fast Engineers & Trade Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005